

श्री के० डी० मालवीय : इस सवाल में तो यह पूछा गया था कि बाहर कौन साहब गये थे और कल्चरल रिलेशन्स कौन्सिल के मातहत क्या कार्यवाही हुई थी। उस का जवाब मैंने दे दिया।

सेठ गोबिन्द दास : क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अभी जो उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में और भी प्रस्तावों पर विचार हो रहा है, वह प्रस्ताव किस प्रकार के हैं ?

मन्सर् आर् इन्वोकेशन्स अिन्ड नेचरल
 (मोलाना) रिसोर्सेज अिन्ड सांतिफिक रिसर्च
 आर्डन : कौन्सिल का मत्सद है बाहर के
 मलकों से हमारे क्लेचरल रिलेशन्स
 प्रोव्हीन प्रोव्हीसर्स का बेहज्जा अिन्वोकेशन्स
 का अिन्वोकेशन्स वगैरह - लहकन अिन्वोकेशन्स
 फांलिशल हालत अिसी नहस है के
 प्रोव्हीस प्रेमाने पर काम किया जाँते - अिस लै
 हम गुर कर रहे हिस के अिन्वोकेशन्स कहां तक
 क्दम अिन्वोकेशन्स जाँते -

[The Minister of Education and Natural Resources and Scientific Research (Maulana Azad): The objectives of the Council are to enhance our cultural relations with the foreign countries, to send professors abroad and to exchange students, etc., etc. But our financial position at present does not warrant us to start this work on a large scale. And so we are considering how far we should go in this matter.]

Shri A. C. Guha: May I know whether the South-East Asian Section has started functioning and if so what has been the progress of its activities.

मोलाना आर्डन : अिन्वोकेशन्स क्लेचरल रिलेशन्स
 है - अिन्वोकेशन्स क्लेचरल रिलेशन्स क्लेचरल रिलेशन्स
 है - अिन्वोकेशन्स क्लेचरल रिलेशन्स क्लेचरल रिलेशन्स
 है - अिन्वोकेशन्स क्लेचरल रिलेशन्स क्लेचरल रिलेशन्स

[Maulana Azad: Steps are being taken in this direction. An English quarterly is going to be published soon. Some other activities are also being initiated.]

श्री बाबशाह गुप्त : क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो विद्यार्थी बाहर से आते हैं उन में से कुछ संस्कृत पढ़ने के लिये भी आते हैं ?

मोलाना आर्डन : मिस अिन्वोकेशन्स
 नहस बतला सकता मकर अिसे अिन्वोकेशन्स
 गुरुर हुरुरे -

[Maulana Azad: I cannot say anything definitely; but there should be some such students who would be studying Sanskrit.]

Sardar Hukam Singh: Apart from exchanging professors and students, are there any other activities of these wings?

Shri K. D. Malaviya: Yes, Sir, there are various other activities also, for instance, publications of quarterlies, exchange of students and savants, maintenance of chairs, etc.

Shri Velayudhan: May I know whether the expenditure on the particular Iranian professor was met by the Government of India or by the sponsoring Government?

Shri K. D. Malaviya: It was met by the Council for Cultural Relations.

श्री एस० सी० सामन्त : अध्यापकों और छात्रों को बाहर भेजने के लिये कोई अलग सिलेक्शन कमेटी है या एजुकेशन मिनिस्ट्री उनका निर्वाचन करती है ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं इस समय तो इस का उत्तर नहीं दे सकता कि विशेषकर कौन भेजता है।

BANARAS AND ALIGARH UNIVERSITIES

*2167. Prof. Agarwal: Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) what steps are the Government of India taking to see that the former communal atmosphere of the Aligarh and Banaras Universities is cleared;

(b) how many Hindu students are, at present, studying in the different Faculties of the Aligarh University; and

(c) what is the number of Muslim and Christian students studying in the Banaras University?

The Parliamentary Secretary to the Minister of Education and Natural Resources and Scientific Research (Shri K. D. Malaviya): (a) The Government of India have amended the Aligarh Muslim University and Benares Hindu University Acts whereby the membership of the Courts of the two Universities has been thrown open to all persons irrespective of religion or caste. Religious instruction in both the Universities is now given only to those who wish to receive it.

(b) and (c). Information for 1952-53 is not yet available as admissions have just commenced. A statement showing the information for 1951-52 is laid on the Table of the House. [See Appendix X, annexure No. 34.]

प्रो० अग्रवाल : क्या मैं यह जान सकता हूँ कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं वह एक साथ होस्टल्स में रहते हैं या अलग अलग होस्टल्स में रहते हैं ?

मल्ट्री ऑफ़ अिजुकेशन अिण्ड निजिगल रसोर्स अिण्ड सांतिफिक रसर्च (मोलना आड) : जहाँ तक गूवर्नमेंट के एलम में है कौनी खास आग अन्तगम नहीं है - वहाँ मली जली जन्दी है -

[The Minister of Education and Natural Resources and Scientific Research (Maulana Azad): So far as the Government are aware, there are no separate arrangements. They live together.]

प्रो० अग्रवाल : क्या मैं जान सकता हूँ कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कितने नान मुस्लिम प्रोफेसर्स हैं और बनारस यूनिवर्सिटी में कितने नान हिन्दू प्रोफेसर्स हैं ?

मोलना आड : अस का जवब मीन अभी नहीं दे सकता -

[Maulana Azad: I cannot give this information at this time.]

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं माननीय बन्नी से पूछ सकता हूँ कि अलीगढ़

यूनिवर्सिटी में जो आपयेलमेलजी की शाखा खोली गई है उसके लिये सरकार ने कितनी रकम देने का विचार किया है ?

Mr. Speaker: I think he is repeating that question in a different form.

Shri M. L. Dwivedi: It was not replied to on that day.

Mr. Speaker: Order, order. He may put a separate question.

मोलना आड : अस का तेलु गेलतु मल्ट्री से है - अिजुकेशन मल्ट्री से नहीं है -

[Maulana Azad: The question relates to the Ministry of Health and not to the Ministry of Education.]

Shri S. N. Das: May I know the number of students in each of these Universities who had expressed their willingness to receive religious instructions and the number of students who are already given religious instruction there?

मोलना आड : मीन थिक अस का जवब कसे दे सकता हूँ - नोत्स की जुरुरत है -

[Maulana Azad: I cannot give this information offhand. I require notice.]

Jonab Amjad Ali: Sir, may I ask, through you, the hon. questioner a question? What does he mean by "the communal atmosphere of the Aligarh and Banaras Universities"?

Mr. Speaker: Order, order.

Jonab Amjad Ali: Is he prepared to explain it, Sir?

Mr. Speaker: The Question-hour is intended for eliciting information from the Treasury Benches and not information from other sources.

Jonab Amjad Ali: The question mentions...

Mr. Speaker: I know what he wants, but he may discuss it outside with him.

RESERVE BANK CREDIT POLICY

*2168. **Shri Barman:** Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) what amount of credit the Reserve Bank of India had financed